




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 373]
No. 373]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2002/श्रावण 23, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2002/SRAVANA 23, 1924

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2002

सं. 40/2002-के.उ.शु.

सा.का.नि. 567(अ).—केंद्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेशित करती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को, उन बातों के सिवाय, जिन्हे ऐसे संशोधन से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधित किया जाएगा ।

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	6/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में, उपाबद्ध में, शर्त सं० 35 और उससे संबंधित शर्त के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>“35 (1) यदि, निकासी के समय, विनिर्माता-</p> <p>(i) टैक्सटाइल समिति के प्राधिकृत अधिकारी से ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित और हो -</p> <p>(क) उसके अन्तर्गत आने वाले माल (जिसे इसमें इसके पश्चात “विनिर्दिष्ट माल” कहा गया है) का सुभिन्न प्रोफाइल ;</p> <p>(ख) यह कि विनिर्दिष्ट माल हथकरघा फैब्रिको से बनाया गया है ; और</p>

		<p>(ग) वह कालावधि जिसके लिए उपर्युक्त प्रमाणन विधिमार्ग है ;</p> <p>(ii) बीजक में घोषणा करता है कि यह माल हथकरघा फैब्रिकों से बनाया गया है और उक्त प्रमाणपत्र के अन्तर्गत सम्यक रूप से आता है ;</p> <p>(iii) यह घोषणा करते हुए ऐसे माल पर लेबल लगाता है कि ऐसा माल हथकरघा फैब्रिकों से बनाया गया है ।</p> <p>(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त एक लेखा परीक्षा टीम को जिसमें, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त और टैक्सटाइल समिति का कोई प्राधिकृत अधिकारी होगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार नमूना परीक्षण आदि करने के लिए प्राधिकृत करेगा और इस प्रकार संचालित लेखा परीक्षा यह प्रकट करेगी कि यह माल हथकरघा फैब्रिकों से बनाया गया है ।</p> <p>स्पष्टीकरण - इस शर्त के प्रयोजनों के लिए माल का सुभिन्न प्रोफाइल उस विस्तृत प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट करता है जिससे माल संबंधित है और परेषण वार ब्यौरों को निर्दिष्ट नहीं करता है ।</p> <p>उदाहरण - पुरुषों की कमीजें, पुरुषों के कुर्ते, पुरुषों के कुर्ता पायजामा सेट, महिलाओं के टाप, महिलाओं के कुर्ते और महिलाओं के सलवार कमीज सैट, इन मर्चों में से प्रत्येक का सुभिन्न प्रोफाइल पृथक् रूप से समाविष्ट करेंगे ।</p>
2.	14/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002.	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) दूसरे परन्तुक में, खंड (क) में “15 और 16” अंकों और शब्द के स्थान पर, “15, 16 और 17” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;</p> <p>(ii) सारणी में, क्रम सं० 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—</p>

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"17	52, 54 या 55	व्यूहित फैब्रिक जिस पर कैलेंडरिंग या वाष्प वेल्डिंग की या दोनों ही प्रक्रियाएं, फुटकर काम के आधार पर, किसी ऐसे कारखाने में की जाती हैं, जिसमें कोई अन्य प्रक्रिया करने के लिए सुविधाएं (संयंत्र और उपस्कर सहित) नहीं हैं, परन्तु यह तब जब कि सेनवेट प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन कोई प्रत्यय नहीं लिया गया है।	16%	-"
			स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए ऐसे फैब्रिकों का मूल्य वह होगा, जो ऐसे फैब्रिकों के संबंध में यथास्थिति कैलेंडरिंग या वाष्प वेल्डिंग या दोनों के लिए फुटकर काम के प्रभार होंगे।		

[फा. सं. बी. 4/2/2002-टीआरयू]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

- टिप्पण : (1) मूल अधिसूचना सं. 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 32/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 जून, 2002 [सा.का.नि. 434(अ), तारीख 18 जून, 2002] द्वारा संशोधन किया गया।
- (2) मूल अधिसूचना सं. 14/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 135(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 37/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 2002 [सा.का.नि. 468(अ), तारीख 3 जुलाई, 2002] द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2002

No. 40/2002-Central Excise

G.S.R. 567(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S.No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification, in the Annexure, for Condition No. 35 and condition relating thereto, the following shall be substituted, namely:-</p> <p>"35. (1) If, at the time of clearance, the manufacturer -</p> <p>(i) produces a certificate, from an authorized officer of the Textiles Committee containing, <i>inter alia</i>, the following details:-</p> <p>(a) the distinctive profile of the goods (hereinafter referred to as the "specified goods") covered therein;</p> <p>(b) that the specified goods are made out of handloom fabrics; and</p> <p>(c) the time period for which the above certification is valid;</p> <p>(ii) declares in the invoice that these goods have been made out of handloom fabrics and are duly covered by the said certificate; and</p> <p>(iii) affixes a label on these goods declaring that such goods have been made out of handloom fabrics.</p> <p>(2) The Commissioner of Central Excise shall authorize, an audit team consisting of the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, and an authorized officer of the Textiles Committee to undertake audit of the records of the manufacturer once in every financial year, sample testing, etc. and the audit so conducted reveals that these goods have been made out of handloom fabrics.</p> <p><i>Explanation.-</i> For the purposes of this condition, the distinctive profile of the specified goods refers to the broad category to which the goods belong and does not refer to consignment wise details.</p> <p><i>Illustration:</i> Men's shirts, men's kurtas, men's kurta-pyjama set, ladies tops, ladies kurtas and ladies' salwar kameez set would comprise of the distinctive profiles of each of these items separately.";</p>

2.	14/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification,-</p> <p>(i) in the second proviso, in clause (a), for the figures and word "15 and 16", the figures and word "15, 16 and 17" shall be substituted;</p> <p>(ii) in the Table, after S.No. 16 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-</p> <table border="1"><thead><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4), (5)</th></tr></thead><tbody><tr><td>"17</td><td>52, 54 or 55</td><td>Woven fabrics subjected to the process of calendering or decatizing or both, on job-work basis, in a factory which does not have the facilities (including plant and equipment) for carrying out any other process, provided no credit under rule 3 or 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002 has been taken.</td><td>16% -".</td></tr></tbody></table> <p><i>Explanation.-</i> For the purposes of this exemption, the value of such fabrics shall be the job-work charges for calendaring or decatizing or both, as the case may be, in respect of such fabrics.</p>	(1)	(2)	(3)	(4), (5)	"17	52, 54 or 55	Woven fabrics subjected to the process of calendering or decatizing or both, on job-work basis, in a factory which does not have the facilities (including plant and equipment) for carrying out any other process, provided no credit under rule 3 or 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002 has been taken.	16% -".
(1)	(2)	(3)	(4), (5)							
"17	52, 54 or 55	Woven fabrics subjected to the process of calendering or decatizing or both, on job-work basis, in a factory which does not have the facilities (including plant and equipment) for carrying out any other process, provided no credit under rule 3 or 11 of the CENVAT Credit Rules, 2002 has been taken.	16% -".							

[F. No. B 4/2/2002-TRU]
G D LOHANI, Under Secy.

Footnote-

(1) The principal notification No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 127 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 32/2002-Central Excise, dated the 18th June, 2002, vide number G.S.R. 434 (E), dated the 18th June, 2002.

(2) The principal notification No. 14/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 135 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 37/2002-Central Excise, dated the 3rd July, 2002, vide number G.S.R. 468 (E), dated the 3rd July, 2002.

25.3761/02-2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2002

सं. 83/2002-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 568(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के निम्न मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपाबंध में,—

(1) शर्त सं. 87 में, उप शर्त (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशर्त और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(क) परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक यूनिटों द्वारा आयातों की दशा में, आयातित मालों की मात्रा, कुल मूल्य, वर्णन और विनिर्देश किसी ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं जो परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का अधिकारी न हो, ”;

(2) सूची 43 में, मद संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“4 राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना-यूनिट-5 और 6 (रावत-भाटा) 440 मेगावाट

5 प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडरिएक्टर (कलपक्कम)-500 मेगावाट।”

[फा. सं. 354/88/99-टी.आर.यू.]

द्विवेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा हुआ और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 70/2002-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2002 [सा.का.नि. 490(अ), तारीख 11 जुलाई, 2002] द्वारा हुआ था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2002

No. 83/2002-Customs

G.S.R. 568(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21 / 2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Annexure,-

(1) in Condition No. 87 for sub-condition (a) and the entries relating thereto, the following sub-condition and the entry shall be substituted, namely,-

“(a) In the case of imports by the constituent units of the Department of Atomic Energy, the quantity, total value, description and specifications of the imported goods are certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy.”;

(2) in List 43, after item number 3 and the entries relating thereto the following item numbers and entries shall be inserted, namely,-

- “4. Rajasthan Atomic Power Project- Units 5 and 6 (Rawatbhata) - 440 MW
5. Prototype Fast Breeder Reactor (Kalpakkam) -500 MW.”.

[F No 354/88/99-TRU]
VIVEKPRASAD, UnderSecy

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002] and was last amended vide notification No. 70/2002- Customs, dated the 11th July, 2002, [G.S.R. 490(E), dated the 11th July, 2002].

